

Welland Gouldsmith School
2nd Language Hindi
Class- V
पाठ – पेंग्विन और उसका परिवेश

दक्ष को पेंग्विन बहुत पसंद आए । वह अपने पिता से उसके बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की । पिता ने कहा पेंग्विन दक्षिण ध्रुव में पाए जाते हैं । इनको सबसे पहले नॉर्वे निवासी रोआल्ड आमनसेन उसके बाद ब्रिटेन निवासी रॉबर्ट स्कॉट ने देखा था । दक्षिण ध्रुव में छह महीने रात्री रहती है । वहाँ अनेक देशों के शिविर बने हुए हैं। भारत का शिविर भी वहाँ बना हुआ है । भारतीय वैज्ञानिक प्राकृतिक खोज के लिए वहाँ के गृष्मऋतु में जाते हैं । पेंग्विन समूह में घूमते हैं । यह बर्फीले स्थान पर रहते हैं । जब वे चलते हैं तो छोटे बच्चों की तरह लगते हैं । इनका शरीर बहुत भारी होता है और पंख छोटे होते हैं । इसलिए ये ज्यादा उड़ नहीं सकते । पर तेज दौड़ सकते हैं । वे मछली और मांस वनस्पति खाकर निर्वाह करते हैं । दक्षिण ध्रुव में बर्फ की परत 2 से 5 किलोमीटर तक होती है ।

Note: प्रश्न सहित उत्तरों को Hindi 2nd Language की अभ्यास पुस्तिका (Exercise Book) में लिखना है ।

क. दिए गए शब्दों के अर्थ वाक्य सहित लिखिए -

1. प्रचंड 3. झंझावत 5. परिवेश
2. गति 4. समूह 6. वनस्पति

ख. पेंग्विन के बारे में पाँच वाक्य लिखें -

ग. भारतीय वैज्ञानिक भारत में शीत ऋतु के आने पर दक्षिण ध्रुव की यात्रा क्यों करते हैं ?

घ. दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाएँ -

1. वह था निवासी का नॉर्वे ।
2. रहती जमी है बर्फ सदा वहाँ ।
3. हुआ है बना शिविर भी भारत का ।
4. सकते भर लम्बी नहीं उड़ान पेंग्विन हैं ।

गृह कार्य (Home work)

च. शुद्ध उच्चारण करें शब्दों को तीन-तीन बार लिखिए । (पेज 50)

छ. दक्षिण ध्रुव में कैसे घर बनाए गए हैं ?

ज. दो, तीन,या चार शब्दों में उत्तर दे -

1. दक्ष टी.वी पर कौन सा चैनल देख रहा था ?
2. धरती के गोलार्धों के नाम क्या हैं ?
3. कंगारू अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं ?
4. पेंग्विन कहाँ पाए जाते हैं ?
5. सर्वप्रथम पेंग्विन को किन दो व्यक्तियों ने देखा ? उनके नाम लिखें ।

झ. पेज 53 में दी गई वर्ग-पहेली में से जानवरों के नाम लिखिए --

----- x -----